



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 10, 1980/पौष 20, 1901  
No. 10] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 1980/PAUSA 20, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1980

का० आ० 10(अ) :—निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अधीन जारी की गई अपनी तारीख 3 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना सं० 464/79 द्वारा तारीख 10 जनवरी, 1980 को उस तारीख के रूप में तय किया है जिसके पूर्व हमने निर्वाचन-क्षेत्रों सहित जम्मू-कश्मीर राज्य के 1-बारा-मूला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा;

श्रीर भारत निर्वाचन आयोग को यह सूचित किया गया है कि उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में मतगणना तारीख 10 जनवरी, 1980 से पूर्व पूरी नहीं की जा सकती है;

और निर्वाचन आयोग का यह विचार है कि उक्त कारण से यह आवश्यक हो गया है कि उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर लिए जाने के लिए समय बढ़ा दिया जाये,

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्वारा ऊपर निर्दिष्ट अपनी तारीख 3 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन श्रीर करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के विद्यमान खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

- "(ड) (i) वह तारीख जिसके पूर्व निम्न- 10 जनवरी, 1980  
लिखित उपखंड (ii) और (iii) (बृहस्पतिवार)  
में उल्लिखित संसदीय निर्वाचन-  
क्षेत्रों के सिवाय, सभी निर्वाचन-  
क्षेत्रों में निर्वाचन पूरा कर लिया  
जाएगा; और
- (ii) वह तारीख जिसके पूर्व जम्मू- 15 जनवरी, 1980  
कश्मीर राज्य के 1-बारा-मूला (मंगलवार)  
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन  
पूरा कर लिया जाएगा, और
- (iii) वह तारीख जिसके पूर्व हिमाचल 21 जुलाई, 1980  
प्रदेश राज्य के 2-मंडी संसदीय (सोमवार)  
निर्वाचन-क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर  
राज्य के 4-लद्दाख संसदीय  
निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन पूरा  
कर लिया जाएगा।"

[सं० 464/80]

के० गणेशन, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 1980

**S.O. 10(E).**—Whereas the Election Commission by its notification No. 464/79, dated the 3rd December, 1979, as amended, issued under section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) has appointed the 10th January 1980 as the date before which the election shall be completed in, among others, 1-Baramulla Parliamentary Constituency in the State of Jammu and Kashmir;

And whereas it has been reported to the Election Commission that the counting of votes in the aforementioned Parliamentary Constituency may not be completed before the said 10th January, 1980;

And whereas the Election Commission considers that for the aforesaid reason it shall be necessary to extend the time for the completion of election in the aforementioned Parliamentary Constituency;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 153 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby makes the

following further amendments in its notification dated the 3rd December, 1979, referred to above, namely :—

For the existing clause (e) of the said notification, the following clause shall be substituted, namely :—

- “e(i) the 10th January, 1980 (Thursday) as the date before which the election shall be completed in all Parliamentary Constituencies other than the Parliamentary Constituencies mentioned in sub-clauses (ii) and (iii) hereinbelow;
- (ii) the 15th January, 1980 (Tuesday) as the date before which the election shall be completed in 1-Baramulla parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir,
- (iii) the 21st July, 1980 (Monday) as the date before which the election shall be completed in 2-Mandi parliamentary constituency in the State of Himachal Pradesh and 4-Ladakh parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir.”

[No. 464/80]

K. GANESAN, Secy.